



Sohanraj Tater <sohan.tater@gmail.com>

आगामी 16-17 दिसम्बर 2016 को ट

1 message

Sohanraj Tater <sohan.tater@gmail.com>

Sun, Dec 18, 2016 at 1:54 PM

To: "Jodhpur, Sohan Raj Tater" <sohan.tater@gmail.com>

आगामी 16-17 दिसम्बर 2016 को टी. पी. एस. कॉलेज के दर्शनशास्त्र विभाग में "सतत विकास : गांधी और आधुनिक परिप्रेक्ष्य " विषयक यूजीसी संपोषित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का सहआयोजक गंगा देवी कॉलेज है। सेमिनार का थीम "सतत विकास : गांधी और आधुनिक तकनीक" काफी प्रासंगिक है। इसके प्रमुख सबथीम हैं- विकास की अवधारणा और बदलते नैतिक मापदंड, सतत विकास और मानवीय मूल्य, विकास और पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और विकास, विकास और सामाजिक न्याय, विकास का मनोविज्ञान, विकास और जैव विविधता, वैज्ञानिक दृष्टि और तकनीकी विकास, सर्वोदय और मूमंडलीकरण, पंचायती राज और विकास, कृषि और सहकारिता, विकास और राष्ट्रीय संसाधन, सुशासन और विकास, विकास और भ्रष्टाचार आदि । इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि कई राज्यों के लगभग 300 प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रमुख आमंत्रित अतिथियों में पूर्व सांसद एवं पूर्व कुलपति प्रो. डॉ. रामजी सिंह, पूर्व कुलपति प्रो. डॉ. सोहन राज तातेड, पूर्व कुलपति प्रो. डॉ. सभाजीत मिश्र, अखिल भारतीय दर्शन परिषद् के अध्यक्ष प्रो. जटाशंकर, पटना विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. आई. एन. सिन्हा, आईसीपीआर के सदस्य प्रो. आर. सी. सिन्हा, पूर्व कुलपति एवं पटना विश्वविद्यालय दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रो. डॉ. रमाशंकर आर्य, बिहार दर्शन परिषद् के पूर्व अध्यक्ष प्रो. डॉ. प्रभु नारायण मंडल, समाजशास्त्री डॉ. आलोक टंडन आदि के नाम शामिल हैं। आयोजन सचिव डॉ. श्यामल किशोर ने बताया कि Abstract भेजने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक बढ़ाई गयी है । Abstract ShyamalKishore11@gmail.com पर भेजा जा सकता है। उदघाटन समारोह में स्मारिका का विमोचन किया जाएगा।